

QUIZ

PART-11

अध्याय - 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत

1. वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं?

- A. केवल नकद
- B. केवल अधिविकर्ष
- C. केवल साख पत्र
- D. नकद, साख, अधिविकर्ष आदि सभी रूपों में (D)

व्याख्या: बैंक अल्प तथा मध्यम अवधि के लिए नकद, साख, अधिविकर्ष, साख पत्र आदि रूपों में ऋण उपलब्ध कराते हैं।

2. वाणिज्यिक बैंक का एक मुख्य गुण क्या है?

- A. प्रक्रिया जटिल होती है
- B. धन समय पर उपलब्ध नहीं होता
- C. आवश्यकतानुसार समय पर धन उपलब्ध
- D. गोपनीयता नहीं रहती (C)

व्याख्या: बैंकों का प्रमुख गुण यह है कि आवश्यकता के समय धन आसानी से उपलब्ध होता है।

3. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में एक सीमा क्या है?

- A. ऋण अवधि बहुत लंबी होती है
- B. कोई जमानत आवश्यक नहीं
- C. कभी-कभी संचालन में बाधा बन सकती हैं
- D. गोपनीयता नहीं मिलती (C)

व्याख्या: बैंक ऋण में कुछ शर्तें ऐसी हो सकती हैं जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती हैं।

4. वित्तीय संस्थान किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराते हैं?

- A. केवल अल्प अवधि
- B. केवल साख पत्र
- C. दीर्घ एवं मध्यम अवधि का वित्त
- D. केवल चालू खाता सुविधा (C)

व्याख्या: वित्तीय संस्थान विशेष रूप से मध्यम और दीर्घ अवधि का वित्त उपलब्ध कराते हैं।

5. वित्तीय संस्थानों का एक प्रमुख गुण क्या है?

- A. तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं
- B. सलाह और तकनीकी सहायता भी मिलती है
- C. केवल नकद ऋण मिलता है
- D. दस्तावेजी प्रक्रिया नहीं होती (B)

व्याख्या: वित्तीय संस्थान परियोजनाओं हेतु तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता भी प्रदान करते हैं।

6. वित्तीय संस्थानों का एक अन्य लाभ क्या है?

- A. साख कम हो जाती है
- B. अन्य स्रोतों से धन जुटाना कठिन हो जाता है
- C. संस्थान से ऋण मिलने पर साख बढ़ती है
- D. ऋण हमेशा अल्प अवधि के लिए मिलता है (C)

व्याख्या: वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने पर व्यवसाय की विश्वसनीयता बढ़ती है।

7. वित्तीय संस्थानों की एक सीमा क्या है?

- A. ऋण सस्ता होता है
- B. ऋण आसानी से मिल जाता है
- C. कठोर मानदंड और अधिक समय
- D. कोई दस्तावेज नहीं (C)

व्याख्या: वित्तीय संस्थानों के ऋण मानदंड कठोर होते हैं और प्रक्रिया समय लेने वाली होती है।

8. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में किसकी आवश्यकता होती है?

- A. बिना किसी प्रमाण के ऋण
- B. संपत्ति जमानत और विस्तृत जाँच
- C. कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं
- D. केवल पहचान पत्र (B)

व्याख्या: बैंक ऋण के लिए जमानत तथा विस्तृत जाँच अनिवार्य होती है।

9. वित्तीय संस्थान मंदी के समय किस प्रकार सहायक होते हैं?

- A. ऋण बंद कर देते हैं
- B. ब्याज बढ़ा देते हैं
- C. सहायता उपलब्ध कराते हैं
- D. ऋण अवधि घटा देते हैं (C)

व्याख्या: वित्तीय संस्थान मंदी के समय भी समर्थन और सहायता प्रदान करते हैं।

10. वाणिज्यिक बैंक का एक अतिरिक्त लाभ क्या है?

- A. समय पर भुगतान की सुविधा
- B. परियोजना सहायता
- C. प्रबंधन में हस्तक्षेप
- D. केवल दीर्घकालीन ऋण (A)

व्याख्या: बैंक समय पर भुगतान और सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसाय का संचालन सुचारु रहता है।